



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021 ई०
(अग्रहायण 15, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), सिद्धार्थनगर

संख्या 5436/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/60-21/2021

दिनांक : 06 दिसम्बर, 2021 ई०

सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 5436/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/60-21/2021, दिनांक : 06 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मैं, दीपक मीणा, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), सिद्धार्थनगर, एतद्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के संलग्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का आदेश देता हूँ :

समय-सारिणी

नाम निर्देशन-पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन-पत्रों की संविधा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
12 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	13 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	14 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	14 दिसम्बर, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	20 दिसम्बर, 2021 (प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	21 दिसम्बर, 2021 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की

जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त, उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात् दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन-पत्र दाखिल करने उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस देने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।

उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संदर्भित निर्वाचन कोविड 19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुये सम्पन्न कराये जायेंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन माह दिसम्बर, 2021 हेतु प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों का विवरण—

क्र० सं०	क्षेत्र	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	पद	पद की आरक्षण श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	इटवा	51	मधवापुर	11	सदस्य	अनारक्षित
2	इटवा	69	खानकोट	6	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
3	इटवा	69	खानकोट	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
4	इटवा	69	खानकोट	11	सदस्य	महिला
5	उसकाबाजार	6	सोहास खास	8	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
6	उसकाबाजार	18	चोरई	8	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
7	उसकाबाजार	21	कुआघाटा	7	सदस्य	अनारक्षित
8	उसकाबाजार	22	तिघरा	2	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
9	उसकाबाजार	22	तिघरा	5	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
10	उसकाबाजार	27	कुण्डिया	13	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	उसकाबाजार	33	अजिगरा	12	सदस्य	महिला
12	उसकाबाजार	38	समरहना	3	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	उसकाबाजार	41	सुगही	6	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
14	उसकाबाजार	49	पोखरभिटवा	3	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
15	खुनियांव	2	नवल	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	खुनियांव	3	धोबहा	5	सदस्य	महिला
17	खुनियांव	4	गौरडीह	6	सदस्य	अनारक्षित
18	खुनियांव	5	मधवापुरकला	6	सदस्य	महिला
19	खुनियांव	13	बारिकपार	5	सदस्य	महिला
20	खुनियांव	13	बारिकपार	6	सदस्य	महिला

1	2	3	4	5	6	7
21	खुनियांव	13	बारिकपार	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
22	खुनियांव	14	जबजौवा	9	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
23	खुनियांव	14	जबजौवा	10	सदस्य	महिला
24	खुनियांव	14	जबजौवा	11	सदस्य	महिला
25	खुनियांव	15	नागचौरी	14	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
26	खुनियांव	15	नागचौरी	15	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
27	खुनियांव	17	गोनरा	6	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
28	खुनियांव	19	मिशरौलियाखालसा	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
29	खुनियांव	19	मिशरौलियाखालसा	9	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
30	खुनियांव	19	मिशरौलियाखालसा	13	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
31	खुनियांव	20	करौदा खालसा	4	सदस्य	अनारक्षित
32	खुनियांव	20	करौदा खालसा	7	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
33	खुनियांव	20	करौदा खालसा	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
34	खुनियांव	22	कनकटी	6	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
35	खुनियांव	22	कनकटी	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
36	खुनियांव	29	कुसमही	8	सदस्य	महिला
37	खुनियांव	29	कुसमही	9	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
38	खुनियांव	34	बरगदवा पूरवी	9	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
39	खुनियांव	35	खखराखखरी	8	सदस्य	महिला
40	खुनियांव	37	सिरसिया	3	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
41	खुनियांव	37	सिरसिया	5	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
42	खुनियांव	40	मौना	1	सदस्य	अनारक्षित
43	खुनियांव	40	मौना	10	सदस्य	महिला
44	खुनियांव	42	सन्दलजोत	7	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
45	खुनियांव	43	सखुहया बुजुरग	8	सदस्य	महिला
46	खुनियांव	44	बभनी माफी	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
47	खुनियांव	44	बभनी माफी	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
48	खुनियांव	50	कनवर	7	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
49	खुनियांव	50	कनवर	11	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
50	खुनियांव	50	कनवर	12	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
51	खुनियांव	50	कनवर	13	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
52	खुनियांव	53	ऊचडीह	13	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
53	खुनियांव	54	रमवापुरसीर	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
54	खुनियांव	56	फरनदा	1	सदस्य	महिला

1	2	3	4	5	6	7
55	खुनियांव	60	गिरधरपुर	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
56	खुनियांव	61	इटवावन	7	सदस्य	अनुसूचित जाति
57	खुनियांव	67	रुद्रौलिया बू0	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
58	खुनियांव	68	धौरहरा मय परसादी खास	6	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
59	खुनियांव	68	धौरहरा मय परसादी खास	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
60	खुनियांव	68	धौरहरा मय परसादी खास	12	सदस्य	महिला
61	खुनियांव	72	जलकरी उरफखजुहा	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
62	खुनियांव	74	महुआखुरद	8	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
63	खुनियांव	74	महुआखुरद	11	सदस्य	महिला
64	खुनियांव	75	मानादर्ई	9	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
65	खुनियांव	75	मानादर्ई	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
66	खुनियांव	80	दवभरिया	5	सदस्य	अनारक्षित
67	खुनियांव	83	बहादुरपुर	8	सदस्य	अनारक्षित
68	खुनियांव	83	बहादुरपुर	9	सदस्य	अनारक्षित
69	खुनियांव	85	तिघराघाट	4	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
70	खुनियांव	85	तिघराघाट	5	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
71	खुनियांव	86	डडवा	4	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
72	खुनियांव	89	करही	6	सदस्य	अनारक्षित
73	खुनियांव	89	करही	8	सदस्य	अनारक्षित
74	खुनियांव	89	करही	15	सदस्य	अनारक्षित
75	खुनियांव	92	मनकर	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
76	खुनियांव	92	मनकर	9	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
77	खुनियांव	94	गैसडा	9	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
78	खुनियांव	96	मिठौवा	2	सदस्य	अनारक्षित
79	खुनियांव	97	पटियापार	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
80	खुनियांव	97	पटियापार	11	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
81	खुनियांव	98	बनकटा पूर्वी	4	सदस्य	अनारक्षित
82	खुनियांव	98	बनकटा पूर्वी	11	सदस्य	अनारक्षित
83	खुनियांव	99	केरवनिया	3	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
84	खुनियांव	99	केरवनिया	6	सदस्य	अनुसूचित जाति
85	खुनियांव	100	सेमरा	6	सदस्य	अनुसूचित जाति
86	खुनियांव	101	भिटिया	5	सदस्य	अनारक्षित
87	खुनियांव	101	भिटिया	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
88	खुनियांव	103	तुर्कवलिया	7	सदस्य	महिला

1	2	3	4	5	6	7
89	खुनियांव	105	चौबेपुर	9	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
90	खुनियांव	106	मझौवा	1	सदस्य	अनारक्षित
91	खुनियांव	106	मझौवा	4	सदस्य	अनारक्षित
92	खुनियांव	106	मझौवा	5	सदस्य	महिला
93	खुनियांव	107	जिगनिहवा उर्फ जोलहाभारी	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
94	खुनियांव	107	जिगनिहवा उर्फ जोलहाभारी	8	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
95	खुनियांव	107	जिगनिहवा उर्फ जोलहाभारी	9	सदस्य	अनुसूचित जाति
96	खुनियांव	109	परसिया	3	सदस्य	अनारक्षित
97	खुनियांव	110	पड़री	9	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
98	खुनियांव	110	पड़री	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
99	खुनियांव	110	पड़री	11	सदस्य	अनारक्षित
100	खुनियांव	114	धोबहा एहतमाली	8	सदस्य	महिला
101	खुनियांव	115	तिघरी राय	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
102	खुनियांव	115	तिघरी राय	11	सदस्य	महिला
103	खेसरहा	12	करही बगही	7	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
104	खेसरहा	15	खसरहा	12	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
105	खेसरहा	17	गैडाखोर	1	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
106	खेसरहा	17	गैडाखोर	10	सदस्य	अनुसूचित जाति
107	खेसरहा	32	नासिरगंज	1	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
108	खेसरहा	60	भूपतजोत	9	सदस्य	अनुसूचित जन जाति महिला
109	जोगिया	5	पकड़ी	2	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
110	जोगिया	7	नकाही	2	सदस्य	अनारक्षित
111	जोगिया	7	नकाही	4	सदस्य	अनुसूचित जनजाति
112	जोगिया	16	गगवा छपिया	4	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
113	जोगिया	18	नगपरी	3	सदस्य	महिला
114	जोगिया	25	दोहनी	3	सदस्य	अनुसूचित जाति
115	जोगिया	32	लखनापार	0	प्रधान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
116	जोगिया	40	सिसवा बू0	5	सदस्य	अनारक्षित
117	जोगिया	42	महला	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
118	जोगिया	52	कुसमही	11	सदस्य	अनुसूचित जाति
119	जोगिया	52	कुसमही	12	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
120	जोगिया	58	अमरिया	3	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
121	जोगिया	64	बैदौली	1	सदस्य	अनुसूचित जाति
122	जोगिया	64	बैदौली	10	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला

1	2	3	4	5	6	7
123	जोगिया	66	पिपरहवा	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
124	डुमरियागंज	5	ववामुसतफा	10	सदस्य	अनारक्षित
125	डुमरियागंज	15	सोनखर	4	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
126	डुमरियागंज	23	चौकनिया	11	सदस्य	महिला
127	डुमरियागंज	31	जमुनी	1	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
128	डुमरियागंज	31	जमुनी	12	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
129	डुमरियागंज	36	भडरिया	15	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
130	डुमरियागंज	40	पुरैना	3	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
131	डुमरियागंज	53	रमवापुर	4	सदस्य	अनारक्षित
132	डुमरियागंज	63	महीहरदो	1	सदस्य	अनारक्षित
133	डुमरियागंज	63	महीहरदो	2	सदस्य	अनारक्षित
134	डुमरियागंज	63	महीहरदो	3	सदस्य	अनारक्षित
135	डुमरियागंज	63	महीहरदो	12	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
136	डुमरियागंज	66	विलवट	13	सदस्य	अनुसूचित जाति
137	डुमरियागंज	85	टिकरिया	3	सदस्य	अनारक्षित
138	डुमरियागंज	85	टिकरिया	4	सदस्य	अनारक्षित
139	डुमरियागंज	85	टिकरिया	5	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
140	डुमरियागंज	86	औराताल	6	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
141	डुमरियागंज	103	खोरिया शिवबक्श	2	सदस्य	महिला
142	डुमरियागंज	103	खोरिया शिवबक्श	3	सदस्य	अनारक्षित
143	डुमरियागंज	103	खोरिया शिवबक्श	4	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
144	डुमरियागंज	103	खोरिया शिवबक्श	5	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
145	डुमरियागंज	103	खोरिया शिवबक्श	9	सदस्य	अनारक्षित
146	डुमरियागंज	104	मिश्रौलिया माफी	7	सदस्य	महिला
147	डुमरियागंज	110	रंगरेजपुर	6	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
148	डुमरियागंज	113	बनकटी	9	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
149	नौगढ़	6	हरदासपुर	13	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
150	नौगढ़	16	दूरजनपुर	11	सदस्य	अनारक्षित
151	नौगढ़	51	वरडपुर 14	15	सदस्य	अनारक्षित
152	बढनी	2	खजूरिया शरकी	4	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
153	बढनी	6	सिसवा बू०	6	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
154	बढनी	6	सिसवा बू०	11	सदस्य	अनुसूचित जाति
155	बढनी	19	मनिकौरा	8	सदस्य	महिला
156	बढनी	22	हृदयनगर उरफ कलयाणनगर	10	सदस्य	अनारक्षित

1	2	3	4	5	6	7
157	बढनी	31	चमपापुर	11	सदस्य	अनुसूचित जाति
158	बढनी	33	धरुआर	5	सदस्य	अनारक्षित
159	बढनी	34	दूधवनिया बू0	6	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
160	बढनी	34	दूधवनिया बू0	11	सदस्य	महिला
161	बढनी	34	दूधवनिया बू0	12	सदस्य	अनारक्षित
162	बढनी	39	चनदर्ई	3	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
163	बढनी	39	चनदर्ई	8	सदस्य	महिला
164	बढनी	41	मोहनकोला	1	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
165	बढनी	41	मोहनकोला	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
166	बढनी	41	मोहनकोला	11	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
167	बढनी	41	मोहनकोला	12	सदस्य	महिला
168	बढनी	42	चरिगवा (जोवकूड़ा)	7	सदस्य	महिला
169	बढनी	47	मानपुर	2	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
170	बढनी	54	धनौरा मू0	7	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
171	बढनी	54	धनौरा मू0	11	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
172	बढनी	57	जियाभारी	3	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
173	बढनी	57	जियाभारी	9	सदस्य	अनुसूचित जाति
174	बढनी	63	पैकी	11	सदस्य	महिला
175	बढनी	64	पिकौरा	1	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
176	बढनी	64	पिकौरा	4	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
177	बढनी	64	पिकौरा	6	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
178	बढनी	70	महादेव खुर्द	8	सदस्य	महिला
179	बढनी	70	महादेव खुर्द	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
180	बढनी	72	परसोहिया	3	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
181	बांसी	16	तलपरवा	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
182	बांसी	28	सखईया	5	सदस्य	अनारक्षित
183	बांसी	34	टकापार	12	सदस्य	अनारक्षित
184	बांसी	63	सुभौली	3	सदस्य	अनारक्षित
185	बांसी	80	उड़वलिया	11	सदस्य	अनारक्षित
186	मिठवल	41	मिठवल बू0	1	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
187	मिठवल	74	नदाव	4	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
188	मिठवल	76	निसहर	2	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
189	मिठवल	88	साड़ीखूरद	7	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला
190	मिठवल	90	असनहरा	2	सदस्य	अनुसूचित जनजाति महिला

1	2	3	4	5	6	7
191	लोटन बाजार	7	फुलवरिया	2	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
192	लोटन बाजार	7	फुलवरिया	3	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
193	लोटन बाजार	12	पटखौली	10	सदस्य	अनारक्षित
194	लोटन बाजार	35	भलौजी बुजुरग	12	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
195	लोटन बाजार	46	लकड़ा	3	सदस्य	अनुसूचित जाति
196	लोटन बाजार	54	फुटुक	10	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
197	वर्डपुर	20	दूलहाजनूबी	8	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
198	वर्डपुर	22	बरडपुर 4	5	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
199	वर्डपुर	22	बरडपुर 4	6	सदस्य	अनारक्षित
200	वर्डपुर	22	बरडपुर 4	10	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
201	शोहरतगढ़	1	परिगवा	9	सदस्य	महिला
202	शोहरतगढ़	2	चौहटा	5	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
203	शोहरतगढ़	4	कोटियादीगर	1	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
204	शोहरतगढ़	4	कोटियादीगर	2	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
205	शोहरतगढ़	7	लदवा	7	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
206	शोहरतगढ़	21	चिलहिया	14	सदस्य	अनुसूचित जाति महिला
207	शोहरतगढ़	21	चिलहिया	15	सदस्य	अनारक्षित
208	शोहरतगढ़	26	नियाव	2	सदस्य	अनुसूचित जाति
209	शोहरतगढ़	26	नियाव	4	सदस्य	अनुसूचित जाति
210	शोहरतगढ़	28	डेहरिया बू0	9	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
211	शोहरतगढ़	39	मदरहना जनूवी	1	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
212	शोहरतगढ़	40	महली	4	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
213	शोहरतगढ़	45	अलीदापुर	3	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
214	शोहरतगढ़	45	अलीदापुर	5	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
215	शोहरतगढ़	45	अलीदापुर	12	सदस्य	महिला
216	शोहरतगढ़	45	अलीदापुर	13	सदस्य	महिला
217	शोहरतगढ़	45	अलीदापुर	15	सदस्य	अनारक्षित
218	शोहरतगढ़	47	कौवा	5	सदस्य	अनुसूचित जाति
219	शोहरतगढ़	54	गूजरौलियाखालसा	2	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
220	शोहरतगढ़	58	दहियाड़	7	सदस्य	अनुसूचित जाति
221	शोहरतगढ़	58	दहियाड़	8	सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
222	शोहरतगढ़	58	दहियाड़	10	सदस्य	अनुसूचित जाति

दीपक मीणा,
जिला मजिस्ट्रेट /
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
सिद्धार्थनगर।